



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र 1935 (श0)
(सं0 पटना 722) पटना, शुक्रवार, 13 सितम्बर 2013

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

10 सितम्बर 2013

सं0 नि० प्रा०/नि० 1-08/2012/1004—बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 के प्रावधानों के आलोक में बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निर्बाधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निर्बाधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के लिए निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियां) नियुक्त किया जाता है। सामान्य तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ही निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियां) होंगे। किन्तु विशेष परिस्थिति में उनकी अनुपस्थिति में या कार्यहित में जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियां) की अनुशांसा पर अंचलाधिकारी भी उस कार्य का निर्वहन करेंगे।

3. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-5 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन पदाधिकारी के अधीन उक्त निर्बंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के उप-निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्रखंड पर्यवेक्षीय पदाधिकारी को नियुक्त करने के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) को प्राधिकृत किया जाता है।

आदेश से,

फूल सिंह,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 722-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>